

Department of Sociology

Shri J.N.M.P.G. College Lucknow.

E-Content for B.A. Sem-IV, Paper –I
“Foundation of Sociological Thought”

Dr. Sunil Pati Tripathi (Assistant Professor)
Ajay Kumar Tripathi (Assistant Professor)

टाल्कट पारसन्स

1. टाल्कट पारसन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली के लिए प्रकार्यात्मक पूर्वपिक्षाएँ हैं – अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं विन्यास अनुरक्षण।
2. पारसन्स सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं - सामाजिक अंतरक्रिया की स्थिर व्यवस्थाएँ।
3. पारसन्स के अनुसार क्रिया के तत्व हैं – कर्ता।
4. विकसित और विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चारों का प्रयोग किसने किया – टाल्कट पारसन्स।
5. पारसन्स ने अपने किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया – दी सोशल सिस्टम (The Social System).
6. स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन (Structure of Social Action) किसकी पुस्तक है – पारसन्स।
7. सामाजिक व्यवस्था (Social System) पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई – talkat parsons.
8. किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है - टाल्कट पारसन्स।
9. टाल्कट पारसन्स ने प्रतिमान विकल्प की अवधारणा किस पुस्तक में दी है - दी सोशल सिस्टम (The Social System).
10. टाल्कट पारसन्स से समाज को किस रूप में देखते हैं? - मूल्यों के प्रति वचनबद्धता।
11. पारसन्स ने कितने प्रकार के प्रतिमान विकल्प (विन्यास प्रकारांतर) बताए हैं – 04 .
12. टाल्कट पारसन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का आंतरिक लक्ष्य कौन सा है- एकीकरण।

कार्ल मार्क्स

1. कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ - 5 मई 1818 को जर्मनी में।
2. 'द होली फैमिली' के लेखक कौन हैं - कार्ल मार्क्स।
3. वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं - मार्क्स ।
4. मार्क्स के अनुसार सभी समाजों का इतिहास किस बात का प्रतीक है - वर्ग संघर्ष का।
5. मार्क्स की किस पुस्तक को श्रमिकों की बाइबिल कहा जाता है - दास कैपिटल।
6. किस विद्वान को सर्वहारा वर्ग का मसीहा माना जाता है - कार्ल मार्क्स।
7. 'स्वयं में वर्ग' एवं 'स्वयं के लिए वर्ग' की अवधारणा किसने प्रस्तुत की - मार्क्स।
8. अलगाववाद का सिद्धांत किसने दिया - कार्ल मार्क्स।
9. कार्ल मार्क्स ने 'आधार संरचना' (Sub-culture) में किस तत्व को रखा - अर्थव्यवस्था।
10. पेट्री बुजुर्ग वर्ग का उल्लेख किसने किया - कार्ल मार्क्स ।
11. कार्ल मार्क्स के वर्ग-संघर्ष सिद्धांत में माध्यम वर्ग की बात किसने की है-
राल्फ ।
12. हीगल के विचारों के द्वंदवादी सिद्धांत में भौतिकता को किसने महत्व दिया - कार्ल मार्क्स।
13. किसने कहा कि कामगारों का कोई देश नहीं होता? - कार्ल मार्क्स। 'अब तक अस्तित्व में आये समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है।' यह कथन किसका है- कार्ल मार्क्स।
14. द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो किसकी रचना है- कार्ल मार्क्स ।
15. धर्म को अफीम की संज्ञा किसने दी है - कार्ल मार्क्स।
16. अपने सिद्धांत में किसने उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, तथा उत्पादन की शक्तियों का उल्लेख किया है - कार्ल मार्क्स ।
17. कार्ल मार्क्स के अनुसार किस समाज में वर्ग नहीं था - आदिम समाज।
18. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया - कार्ल मार्क्स।
19. आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया - कार्ल मार्क्स।

रॉबर्ट के मर्टन

1. रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह निर्माण का आधार क्या है - सापेक्ष वंचन।
2. मध्य सीमा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया - राबर्ट मर्टन।
3. भूमिका समूह सिद्धांत (role set theory) का उदाहरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया -मर्टन
4. प्रकार्य को प्रकट एवं अगोचर (अप्रकट) प्रकार में किसने बांटने का प्रयास किया- आर के मर्टन।
5. किसने कहा है, "भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं - मर्टन।
6. व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने इससे ग्रहण किया - फ्रांसिस बेकन।
7. किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदाई है - मर्टन।
8. अप्रकट प्रकार वे होते हैं जो - न तो अभीष्ट और ना ही अभिज्ञान।
9. मर्टन के अनुसार प्रकार्य- अनुकूलन में सहायक होते हैं।
10. किसने यह तर्क दिया कि संरचना की सभी इकाइयां व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक नहीं होती- मर्टन।
11. होपी जनजाति का उदाहरण मर्टन ने किस प्रकार हेतु किया -निहित प्रकार्य।

मैक्स वेबर

1. अर्थपूर्ण अवबोधन को समाजशास्त्र में सम्मिलित करने वाला विद्वान कौन है-मैक्स वेबर।
2. किसने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है- मैक्स वेबर।
3. थिअरी आफ सोशल एंड इकोनामिक आर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है - मैक्स वेबर।
4. प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज़्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है?- मैक्स वेबर।
5. आदर्श प्रारूप की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा विकसित की गई - मैक्स वेबर।
6. नौकरशाही की अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है -मैक्स वेबर।
7. नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है तार्किक सत्ता।
8. मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए - 3 .
9. मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए- 4.
10. साध्य और साधन को दृष्टिगत रखते हुए की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है - तार्किक क्रिया।
11. वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना- कुल 6 धर्म।
12. वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में किस धर्म को सहायक माना- प्रोटेस्टेंट धर्म।
13. जब सत्ता को वैधता प्राचीन मान्यताओं से मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? -परंपरागत सत्ता।
14. एक जिलाधिकारी की सत्ता किस प्रकार की सत्ता के अंतर्गत आती है- तार्किक वैधानिकता।
15. महात्मा गांधी की सत्ता किस प्रकार की सत्ता के अंतर्गत आती है- चमत्कारिक सत्ता।